

1. कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्कसंगत सही निष्कर्ष की पहचान करें।  
कथन: सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को 'दुर्गम क्षेत्र भत्ता' देना चाहिए।  
तर्क:

- 1: हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की कर्तव्यनिष्ठा में बढ़ोत्तरी करेगा।  
2: नहीं, यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है।  
A. केवल तर्क (1) सशक्त है।  
B. केवल तर्क (2) सशक्त है।  
C. न तो (1) और न ही (2) सशक्त है।  
D. (1) और (2) दोनों ही सशक्त हैं।

2. कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें।  
कथन: दुकानदार ने संजय से कहा, "इनमें से यह 3 दरवाजों वाला फ्रिज आपकी जरूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त रहेगा"।

पूर्वधारणा:

- 1: संजय को एक फ्रिज की आवश्यकता है।  
2: फ्रिज में 3 दरवाजे हैं।  
A. केवल (1) अंतर्निहित है।  
B. केवल (2) अंतर्निहित है।  
C. (1) और (2) दोनों अंतर्निहित हैं।  
D. या तो (1) या (2) अंतर्निहित है।

3. शृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

A, D, J, O, S, ?, X

- A. V B. Z  
C. T D. G


4. शृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।  
10P, 13M, 16J, 19G, ?

- A. 22D B. 25K  
C. 28P D. 20T

5. शृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।  
3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, ?  
A. 20 B. 23  
C. 32 D. 16

6. यदि Q का अर्थ +, J का अर्थ  $\times$ , T का अर्थ  $-$ , K का अर्थ  $+$  है तो  $35K5Q4J8T2$  का मान क्या होगा?  
A. 39 B. 37  
C. 42 D. 40


7. नीचे दिया गया डेटा 'ABC' कंपनी की बिना गियर वाली दुपहिया मोटर साइकिलों की बिक्री से संबंधित जानकारी दर्शाता है।



दिये गए वर्षों में से किस वर्ष सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई?

- A. 2014 B. 2016  
C. 2012 D. 2008

8. नीचे दिया गया डेटा 'ABC' कंपनी की बिना गियर वाली दुपहिया मोटर साइकिलों की बिक्री से संबंधित जानकारी दर्शाता है।



पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बिक्री में कमी आई?

- A. 2004 B. 2006  
C. 2008 D. 2011

A - TN

9. प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, यदि

1:  $n$  प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग  $s_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

- 2:  $n$  एक धनात्मक पूर्णांक है।

A. केवल (1) पर्याप्त है।

B. केवल (2) पर्याप्त है।

C. या तो (1) या (2) पर्याप्त हैं।

☒ D. (1) और (2) दोनों आवश्यक (पर्याप्त) हैं।

10. शकुंतला की आयु ज्ञात करें, यदि

- 1: शकुंतला की आयु अपने पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है।

- 2: शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है।

A. केवल (1) पर्याप्त है।


B. केवल (2) पर्याप्त है।

C. या तो (1) या (2) पर्याप्त हैं।


☒ D. (1) और (2) दोनों आवश्यक (पर्याप्त) हैं।

11. दिये गए सादृश्य में अगली आकृति का चयन करें।

प्रश्न आकृतियाँ:



उत्तर आकृतियाँ:



A

B

C

D

A. A


B. B

☒ C. C

D. D

12. दिये गए सादृश्य में अगली आकृति का चयन करें।

प्रश्न आकृतियाँ:



उत्तर आकृतियाँ:



A

B

C

D


A. A

☒ B. B

C. C

D. D

13. असंगत की पहचान करें।



A

B

C

D


A. A

B. B

☒ C. C

D. D

14. निम्नांकित आकृतियों में से असंगत आकृति की पहचान करें।



A

B

C

D


A. A

B. B

☒ C. C

☒ D. D

15. असंगत की पहचान करें।



A

B

C

D

A. A

B. B

C. C

☒ D. D

16. असंगत की पहचान करें:



A

B

C

D


A. A

B. B


C. C

D. D

17. निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें: "मार्शल आर्ट, कुंग-फू, कराटे"



18. दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें:



A. 32

B. 28

C. 30

D. 26

19. प्रणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। वह बाएं मुड़ती है और फिर से बाएं मुड़ती है, अंत में वह दाएं जाती है। अभी वह किस दिशा में चल रही है?


A. उत्तर

B. पूर्व

C. पश्चिम

D. दक्षिण

20. निम्नांकित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें।



A. A

B. B

C. C

D. D

21. निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है?

A. सी. वी. रमन

B. होमी जे. भाभा

C. एम. एस. धोनी

D. श्रीनिवास रामानुजन

22. किसी विशिष्ट कोड में CUP को FXS लिखा जाता है। तो उसी कोड में TEA को क्या लिखा जाएगा?

A. WHO

B. HOM

C. TND

D. WHD

23. राधिका की बहन ज्योति है। ज्योति के पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंधित हैं?

A. बुआ

B. बहन

C. दादी

D. भतीजी

24. दिये गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्धारित कीजिए कि इनके आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है?

कथन:

कुछ अंगूर नीले हैं। कुछ काजू मटर हैं।

निष्कर्ष:

1: कुछ अंगूर लाल हैं।

2: कुछ काजू नीले हैं।

A. केवल निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।

B. केवल निष्कर्ष (2) अनुसरण करता है।

C. (1) और (2) दोनों अनुसरण करते हैं।

D. न तो (1) और न ही (2) अनुसरण करता है।

2018-7-14 19:21

A - TN

25. कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें।  
कथन:

- 1: एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं।
- 2: एक षट्कोण में 6 भुजाएं होती हैं।

निष्कर्ष:

एक बहुभुज में कई भुजाएं होती हैं।

A. निश्चित रूप से गलत

☒ B. निश्चित रूप से सही

C. असंगत

D. कुछ कहा नहीं जा सकता

26. कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से सही तर्क की पहचान करें।

कथन:

पहाड़ी और कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात संकेतों के लिए अधिक तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए।

तर्क:

- 1: हाँ, कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त क्षमता के प्रकाश संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- 2: नहीं, इस प्रकार की अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में बिजली की खपत अधिक होती है।

☒ A. केवल तर्क (1) सशक्त है।

B. केवल तर्क (2) सशक्त है।

C. न तो (1) और न ही (2) सशक्त है।

D. (1) और (2) दोनों सशक्त हैं।

27. कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही पूर्वधारणा की पहचान करें।

कथन:

आजकल राहुल के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से उनसे मिलना कठिन हो गया है।  
पूर्वधारणा:

1: राहुल आजकल व्यस्त हैं।

2: राहुल एक राजनेता हैं।

☒ A. केवल (1) अंतर्निहित है।

B. केवल (2) अंतर्निहित है।

C. (1) और (2) दोनों अंतर्निहित हैं।

D. या तो (1) या (2) अंतर्निहित है।

28. शृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

A, B, F, J, ?, ?, V

A. N, T

☒ B. N, R

C. R, X

D. W, P

29. शृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

6F, 8G, 12H, 18L, ?

A. 25K

B. 20G

☒ C. 26Z

D. 26P

30. शृंखला 5, 9, 13, 17 \_\_\_\_\_ में पंद्रहवां पद क्या होगा?

☒ A. 61

B. 60

C. 72

D. 92

31. निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है?

A. प्लैटिनम

B. चांदी

C. सोना

2018-7-14 19:21

32. कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है?

- A.  $\text{CaCl}_2$  B.  $\text{CaCl}$   
C.  $\text{CaCl}_3$  D.  $\text{CaCl}_4$

33. निम्नलिखित यौगिकों में से किसे 'कास्टिक सोडा' के रूप में भी जाना जाता है?

- A.  $\text{NaNO}_3$  B.  $\text{NaCl}$   
C.  $\text{NaOH}$  D.  $\text{NaNO}_4$

34. निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव (होस्ट ऑर्गनिज्म) की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है?

- A. वाइरस B. प्रोटोजोआ  
C. अमीबा D. जीवाणु

35. किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के 'पावर हाउस' के रूप में जाना जाता है?

- A. रिक्तिकाएं B. माइटोकॉन्ड्रिया  
C. नाभिक D. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स

36. मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त-रस को संग्रहीत करता है?

- A. वृक्क B. लार ग्रंथियां  
C. पित्ताशय D. वसा ऊतक

37. प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है?

- A. कार्य B. दबाव  
C. ऊर्जा D. त्वरण

38. किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है?

- A. संवेग B. श्यानता  
C. पृष्ठ-तनाव D. बल आघूर्ण

39. निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है?

- A. जूल B. पास्कल  
C. वाट D. कैंडेला

40. विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है?

- A. स्पेक्ट्रोस्कोप B. मल्टीमीटर  
C. वोल्टमीटर D. एमीटर

41. ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर \_\_\_\_\_ बनता है?

- A. ओला B. हिमपात  
C. शिलावृष्टि D. मेघगर्जन

42. पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है?

- A. तना B. जड़  
C. पत्ती D. शाखा

43. किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है ?

- A. गति B. घनत्व  
C. भार D. वेग

44. सतवाहनास को पुराण में \_\_\_\_\_ भी कहा गया है।

- A. अनामिकास  
B. आनंदास  
C. अन्धेरीस  
D. आन्धास

A - TN

45. वरसाइलेस संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था ?

- A. 1919 B. 1819  
C. 1719 D. 1619

46. भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर, आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है ?

- A. ब्रह्मपुत्र B. गंगा  
C. यमुना D. कृष्णा

47. निम्नलिखित में से किस विकल्प को सतह क्षेत्र की दृष्टि से सामान्यतः सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है?

- A. हिन्द B. एटलैंटिक  
C. पैसिफिक D. आर्कटिक

48. "गर्ल विद ए पर्ल डियरिंग" किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है?

- A. टिटियन B. राफेल  
C. लियोनार्डो डा विन्सी  
D. जोहान्स वर्मीर

49. मिहिर सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं?

- A. तैराकी B. घेस  
C. भारोत्तोलन D. टेनिस

50. उस खेल की पहचान करें जहां आपको पार बनाना पड़ता है?

- A. सॉकर B. गोल्फ  
C. वॉलीबॉल D. रग्बी

अप्रैल 2018 में, गूगल कला एवं संस्कृति ने पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी के साथ, वैश्विक के लिए 360 डिग्री कल्पित वास्तविकता (VR) वीडियो की शुरुआत की है।

- A. 'अमेजिंग इंडिया' खेल  
B. 'वन्डरफुल इंडिया' घरोहर  
C. 'इनक्रडिबल इंडिया' पर्यटन  
D. 'मैग्निफिसेंट इंडिया' पाक शैली

52. अप्रैल 2018 में, विश्व के सबसे छोटे भूमिगत फर्न की खोज कहाँ की गई थी?

- A. विन्ध्या पर्वत श्रेणी  
B. पूर्वी घाट  
C. हिमालय  
D. पश्चिमी घाट

53. अप्रैल 2018 में, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन(नासा) ने \_\_\_\_\_ नामक नए ग्रह की खोज संबंधी अंतरिक्षयान की शुरुआत की है।

- A. ट्रांसिटिंग एक्सोप्लेनट सर्वे सैटलाइट (टीईएसएस)  
B. ट्रांसमिटिंग एक्सोप्लेनट सर्वे सैटलाइट (टीईएसएस)  
C. ट्रैवलिंग एक्सोप्लेनट सर्वे सैटलाइट (टीईएसएस)  
D. ट्रावर्सिंग एक्सोप्लेनट सर्वे सैटलाइट (टीईएसएस)

54. अप्रैल 2018 में, भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के राष्ट्रीय परिषद की \_\_\_\_\_ नामक पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।

- A. भोजन अभियान B. पोषण अभियान  
C. आहार अभियान D. मिठी अभियान

55. अप्रैल 2018 में, भारत और किस अन्य देश ने पारस्परिक सहमति प्रक्रिया(एमएपी) प्रणाली के तहत नोकिया के साथ कर विवाद समझौता किया है?

- A. फिजी B. फ्रांस

2018-7-14 19:21

56. अप्रैल 2018 में, वैज्ञानिकों ने \_\_\_\_\_ के पश्चिमी घाट की पर्वतीय पहाड़ी मैदानों में मेढ़क की फेजेर्वर्या गोम्बी नामक एक नई जाति की पहचान की है।

- A. कर्नाटक B. केरल  
C. गुजरात D. गोवा

57. मौसम के परिवर्तन पर वैश्विक रूप से चर्चा करने हेतु \_\_\_\_\_ को विश्व भर में अर्थ आवर का बारहवां प्रकाशन का पालन किया गया था।

- A. 24 मार्च 2018 B. 27 मार्च 2018  
C. 25 मार्च 2018 D. 20 मार्च 2018

58. मार्च 2018 में, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण बायनेल, ग्राफिक मुद्रण की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी \_\_\_\_\_ में आयोजित की गई थी।

- A. कर्नाटक B. नई दिल्ली  
C. चेन्नई D. मुंबई

59. वर्ष 2017 में कौन सी महिला हॉकी टीम, एशियाई कप हॉकी टाइटल की विजेता थीं?

- A. श्रीलंका B. ऑस्ट्रेलिया  
C. भारत D. पाकिस्तान

60. वर्ष 2018 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत हासिल करते हुए किसने टेनिस पुरुष एकल टाइटल का खिताब अपने नाम पर जारी रखा है?

- A. नोवाक ड्जोकोविक  
B. राफेल नाडाल  
C. मारिन सिलिक  
D. रोजर फेडरर

61. प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केन्द्र किसके आसपास केन्द्रित था?

- A. डूंगरपुर B. जयपुर  
C. बीकानेर D. कोटा

62. प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था?

- A. बीकानेर B. बांसवाडा  
C. धौलपुर D. अलवर

63. राजस्थान में किस भाग में 'यौधेय' नामक गणतन्त्रीय कबीले का शासन रहा?

- A. पश्चिम भाग B. दक्षिण भाग  
C. पूर्वी भाग D. उत्तरी भाग

64. सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे?

- A. कुमारपाल B. जगदेव  
C. सीहा D. विग्रहराज चतुर्थ

65. 8 वीं से 12 वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी 'अक्षपटलिक' का संबंध किस से था?

- A. कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी  
B. राज्य में आय व्यय का ब्योरा रखने वाला अधिकारी  
C. राज कोष और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी  
D. विदेश नीति से संबंधित अधिकारी

66. अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन हैं?

- A. सोमदेव B. मारायण  
C. दामोदर D. गजोधर

67. 'आबु के अभिलेख' के लेखक कौन हैं?

- A. शुभचन्द्र B. पार्श्वचन्द्र  
C. कर्मचन्द्र D. दीपचन्द्र

## A - TN

68. 'रायसिंह की प्रशस्ति' का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
- जयपुर के शासकों से
  - ☒ बीकानेर के शासकों से
  - उदयपुर के शासकों से
  - कोटा के शासकों से
69. कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे?
- मालदेव
  - जयमल
  - ☒ कुमारपाल
  - पृथ्वीराज तृतीय
70. निम्नलिखित में से कौन से शासक 'अभिनव भरताचार्य' के नाम से प्रसिद्ध थे?
- ☒ कुम्भा
  - सांगा
  - भारमल
  - जयसिंह
71. कुम्भलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे?
- केशवदत्त
  - ☒ मण्डन
  - चित्तवन
  - हेमचन्द्र
72. निम्नलिखित में से कौन बिजौलिया किसान आन्दोलन से संबंधित द्वितीय जाँच आयोग के सदस्य नहीं थे?
- रमाकान्त मालवीय
  - ठाकुर राजसिंह
  - मेहता तख्तसिंह
  - ☒ बिन्दुलाल भट्टाचार्य
73. किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष 'पूर्वी मेवाड़ परिषद' की स्थापना की गयी?
- 1930
  - 1915
  - ☒ 1922
  - 1931
74. नानक भील व देवलाल गूजर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
- बिजौलिया किसान आन्दोलन
  - ☒ बुन्दी किसान आन्दोलन
  - मेवाड़ भील आन्दोलन
  - बेगू किसान आन्दोलन
75. बीकानेर प्रजामण्डल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
- लक्ष्मीदास स्वामी
  - ☒ नधाराम वैद्य
  - भिक्षालाल बोहरा
  - मुक्ताप्रसाद
76. अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊँचाई किस जिले में है?
- ☒ सिरोही
  - अजमेर
  - अलवर
  - डूंगरपुर
77. गलत युग्म की पहचान करें—
- सिरोही—अचलगढ़ चोटी
  - अजमेर—तारागढ़ चोटी
  - जयपुर—खौ चोटी
  - ☒ सीकर—गुरुशिखर चोटी
78. राजस्थान के किस अंचल को 'बांगर प्रदेश' भी कहा जाता है?
- हाड़ौती अंचल
  - ☒ शिखावटी अंचल
  - माही का मैदान
  - बनास बेसिन
79. राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है?
- घग्घर का मैदानी अंचल
  - उत्तरी—पूर्वी मैदानी अंचल
  - ☒ अरावली पर्वतीय अंचल
  - थार रेगिस्तान अंचल

80. वन्यजीवों के संरक्षण के लिए किये गए कार्य/कार्यों की पहचान करें-

- A. राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना  
B. वन्यजीवों के शिकार पर रोक  
C. वनरोपण करना  
D. उपरोक्त सभी

81. इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं?

- A. दौसा B. बांसवाड़ा  
C. पाली D. झुंझुनू

82. निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है?

- A. झालावाड़ B. जयपुर  
C. हनुमानगढ़ D. बाड़मेर

83. सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है?

- A. हाथी परियोजना  
B. घड़ियाल परियोजना  
C. शेर परियोजना  
D. बाघ परियोजना

84. पशुगणना-2012 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है?

- A. भैंस B. गाय  
C. बकरी D. भेड़

85. राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है?

- A. उद्योग-धंधे B. कृषि  
C. परिवहन D. खनन

86. नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है?

- A. कालीसिंध परियोजना-उदयपुर  
B. जाखम परियोजना-प्रतापगढ़  
C. जवाई परियोजना-पाली  
D. कोठारी परियोजना-भीलवाड़ा

87. निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है?

- A. जोधपुर B. बांसवाड़ा  
C. बीकानेर D. झालावाड़

88. जनगणना-2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है?

- A. 50 प्रतिशत B. 60 प्रतिशत  
C. 90 प्रतिशत D. 75 प्रतिशत

89. राजस्थान की जनगणना-2011 के अनुसार, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें-

- A. जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 प्रतिशत है  
B. लिंगानुपात-1000 महिलाएँ प्रति हजार पुरुष है  
C. कुल साक्षरता-66.11 प्रतिशत है  
D. राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है

90. ऐतिहासिक पर्यटक स्थल 'आमेर का किला' राजस्थान के किस जिले में स्थित है?

- A. जयपुर B. जैसलमेर  
C. टोंक D. बारां

91. वर्ष 2017-18 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों (2011-12) पर कितनी थी?

- A. 83977 रुपये B. 64522 रुपये  
C. 61053 रुपये D. 76146 रुपये

2018-7-14 19:21

92. वर्ष 2017-18 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र द्वारा मूल स्थिर (2011-12) की कीमतों पर सकल राज्य मूल्य योग का क्षेत्रीय योगदान क्या है?
- A. 30.32 प्रतिशत  
B. 43.68 प्रतिशत  
C. 42.31 प्रतिशत  
D. 29.75 प्रतिशत
93. राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है?
- A. जोधपुर  
B. श्रीगंगानगर  
C. हनुमानगढ़  
D. चुरू
94. किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र (थर्मल पॉवर स्टेशन) की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन (ऑपरेशन) आरंभ किया था?
- A. फरवरी 1999  
B. मार्च 2000  
C. जनवरी 2001  
D. फरवरी 2002
95. राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक (स्मेल्टर) स्थित है?
- A. बाडमेर  
B. बूंदी  
C. झुंझुनू  
D. झुंगर पुर
96. राजस्थान के किस जिले में देवारी जस्ता प्रगालक (स्मेल्टर) स्थित है?
- A. जोधपुर  
B. जयपुर  
C. कोटा  
D. उदयपुर
97. राजस्थान में किस वर्ष में नमक श्रम कल्याण योजना आरंभ हुई थी?
- A. 2005  
B. 2006  
C. 2007  
D. 2009
98. किस वर्ष में 'पन्नाधाय जीवन अमृत योजना' आरंभ हुई थी?
- A. 2004  
B. 2006  
C. 2008  
D. 2002
99. निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है?
- A. राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख  
B. राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति  
C. अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान  
D. अध्यक्ष, अरावली प्रबंधन बोर्ड
100. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है?
- A. हरिदेव जोशी > भैरों सिंह शेखावत > जगन्नाथ पहाड़िया > शिवचरण माथुर  
B. शिवचरण माथुर > जगन्नाथ पहाड़िया > भैरों सिंह शेखावत > हरिदेव जोशी  
C. जगन्नाथ पहाड़िया > भैरों सिंह शेखावत > शिवचरण माथुर > हरिदेव जोशी  
D. शिवचरण माथुर > हरिदेव जोशी > जगन्नाथ पहाड़िया > भैरों सिंह शेखावत
101. राजस्थान राज्य विधान सभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था?
- A. 1950  
B. 1952  
C. 1954  
D. 1956
102. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ (बेंच) कहाँ स्थित है?
- A. जयपुर  
B. जोधपुर  
C. बीकानेर  
D. अजमेर
103. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया?
- A. अप्रैल 2001  
B. मार्च 2000  
C. मार्च 2002  
D. जनवरी 1999

104. राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया?

- A. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1970  
☒ B. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973  
 C. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1976  
 D. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1980

105. राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ?

- ☒ A. 1994 B. 1996  
 C. 1998 D. 1997

106. मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है?

- ☒ A. सास बहू मंदिर - टोंक  
 B. कपिल मुनि मंदिर - कोलायत  
 C. गोविंद देवजी मंदिर - जयपुर  
 D. एकलिंगजी मंदिर - उदयपुर

107. आभानेरी मंदिर कहां स्थित है?

- A. सिरोही B. बरन  
☒ C. दौसा D. सीकर

108. किस शहर के किले में जय बाण या जयवान तोप को रखा गया है?

- A. जैसलमेर ☒ B. जयपुर  
 C. जोधपुर D. बीकानेर

109. निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था?

- ☒ A. ताड़गढ़ B. अंबर  
 C. तारागढ़ D. सोनागढ़

110. इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है?

- A. जयपुर B. नाथद्वारा  
☒ C. किशनगढ़ D. उदयपुर

111. टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस से बनायी जाती हैं?

- ☒ A. सिरेमिक जैसी मिट्टी से  
 B. लकड़ी की कला-कृति से  
 C. लौह अयस्क से  
 D. प्लास्टिक से

112. राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- A. बंगड़ी (छूड़ी) को कलाई में पहना जाता है।  
 B. सुरलिया कानों में पहना जाता है।  
☒ C. फिनी को टखने में पहना जाता है।  
 D. पोलरा को पैरों में पहना जाता है।

113. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिये गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें।

1. निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है।
2. गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है।
3. बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है।

त्योहारों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. 1 और 2 B. 2 और 3  
 C. 1 और 3 ☒ D. 1, 2 और 3

114. मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है?

- A. करणी माता मेला - बीकानेर जिला  
 B. रामदेवरा मेला - जैसलमेर जिला  
☒ C. बनेश्वर (वेणेश्वर) मेला - बाँसवाड़ा जिला  
 D. कैलादेवी मेला - करौली जिला

**A - TN**

115. तिलवाड़ा (बाड़मेर) राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है?  
 A. रामदेव जी B. मल्लिनाथ जी  
 C. शीतला माता D. मावाजी

116. निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद, शाही नरेश (रॉयल किंग) ब्रिटिश वाइसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे?  
 A. रुठी रानी  
 B. सैतान सुजस  
 C. चेतवानी रा चुंगट्या  
 D. सांगला री पीड़ा

117. निम्नलिखित सूची -1 (विरासत) का सूची-2 (स्थान) के साथ मिलान करें और नीचे दिये गए कोड से सही उत्तर चुनें।

सूची-1

सूची-2

P- गजनेर महल

i- बाड़मेर

Q- किराडू मंदिर

ii- उदयपुर

R- जग मंदिर

iii- बीकानेर

A. P i Q ii R iii

B. P ii Q i R iii

C. P iii Q i R ii

D. P iii Q ii R i

118. निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में, विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बाँधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है?

A. समेला

B. पहरावणी

C. बड़ी पाडला

D. कंगन दोरदा

119. राजस्थान की पहली किन्नर (ट्रांसजेंडर) पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित हैं?

A. भीलवाड़ा

B. पाली

C. जालौर

D. सिरोंही

120. भाला फेंक में किस दो बार के अंग्रेजी (पैरालिम्पिक) स्वर्ण पदक विजेता को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था?

A. देवेन्द्र झाझड़िया

B. दीपा मलिक

C. वरुण सिंह भाटी

D. अंकुर धामा